



31 अक्टूबर 2022

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





## प्रमुख खबरें

- ईसीबी ने अपने 2% के मध्यम अवधि के मुद्रास्फीति लक्ष्य पर समय पर वापसी सुनिश्चित करने के लिए अपनी जमा दर को 75 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 1.5% कर दिया- जो 2009 के बाद से सबसे अधिक दर है।
- नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार, चीन ने सितंबर में 946,000 टन रिफाईंड तांबे का उत्पादन किया, जो एक साल पहले की तुलना में 5.8% अधिक है और सितंबर में एल्युमीनियम उत्पादन सालाना आधार पर 9.3% बढ़कर 3.42 मिलियन टन हो गया।
- चालू वित्त वर्ष में भारत का यूरिया आयात 25% कम हो गया, जबकि घरेलू उत्पादन 17% बढ़ा है।
- जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, भारत के बायोटेक रेगुलेटर, ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, जिसे कड-11 भी कहा जाता है, के पर्यावरण रिलीज की सिफारिश की है।
- स्टील पर भारत का निर्यात शुल्क इंजीनियरिंग निर्यात पर भारी पड़ रहा है, सितंबर में कुल निर्यात में 11% की गिरावट हुई है।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2022-23 के मौजूदा रबी मौसम में अब तक 54,000 हेक्टेयर में गेहूँ की बुवाई की गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 34,000 हेक्टेयर से 59% अधिक है।
- जनवरी-सितंबर के दौरान भारत का चीन से व्यापार 100 अरब डॉलर से अधिक हो गया है जबकि व्यापार घाटा बढ़कर 75 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।
- सितंबर में जापान की बेरोजगारी दर बढ़कर 2.6% हो गई है: सरकारी रिपोर्ट।
- जुलाई से सितंबर तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर 2.6 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ी है।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	21.10.22	27.10.22	बदलाव (%)
बाजरा	1874.00	1928.00	2.88%
धनिया	11340.00	11620.00	2.47%
जीरा	23920.00	24250.00	1.38%
ग्वारसीड	4637.00	4679.00	0.91%
ग्वारगम	9094.00	9151.00	0.63%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	21.10.22	27.10.22	बदलाव (%)
मक्का	2261.00	2125.00	-6.02%
कॉटनऑयलसीडकेक	2475.00	2407.00	-2.75%
हल्दी	7638.00	7462.00	-2.30%
कपास	1588.50	1557.00	-1.98%
स्टील	49040.00	48250.00	-1.61%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	21.10.22	27.10.22	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	409.80	484.60	18.25%
कच्चा तेल	7043.00	7362.00	4.53%
एल्युमीनियम	196.90	199.15	1.14%
तांबा	652.65	658.55	0.90%
सोना पेटल	4995.00	5027.00	0.64%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	21.10.22	27.10.22	बदलाव (%)
कॉटन	33310.00	32690.00	-1.86%
लेड	178.35	176.80	-0.87%

## साप्ताहिक समीक्षा

डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से सीआरबी इंडेक्स में कुछ मजबूती दर्ज की गई है। फेड के कम आक्रामक बयान, डॉलर इंडेक्स को 110 से नीचे चला गया, के कारण बुलियन काउंटर में कुछ बढ़त दर्ज की गई। फेडरल रिजर्व द्वारा इस वर्ष के बाद के दिनों में मौद्रिक नीति को सख्त करने की धीमी गति की बढ़ती संभावना से अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी की यील्ड में गिरावट के कारण गुरुवार को सोने की कीमतें दो सप्ताह में अपने उच्चतम स्तर के पास कारोबार कर रही थीं। डॉलर अब एक महीने में अपने सबसे निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, और सितंबर में बीस साल के उच्च स्तर से लगभग 5% नीचे आ गया है। ऊर्जा काउंटर में भी रिकवरी हुई। डॉलर कम कमजोर होने के कारण गुरुवार को तेल की कीमतें दो सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गईं, जबकि अमेरिकी कच्चे तेल के रिफाईंड-उच्च निर्यात से पता चलता है कि हालिया आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद वैश्विक स्तर पर तेल मांग मजबूत बनी हुई है। बढ़ती मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के बावजूद वैश्विक स्तर पर मांग में कुछ लचीलेपन की ओर इशारा करते हुए, अमेरिकी कच्चे तेल का निर्यात एक दिन में रिफाईंड 5.1 मिलियन बैरल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। व्हाइट हाउस ने पिछले सप्ताह एसपीआर से लगभग 3.4 मिलियन बैरल कच्चा तेल जारी किया, जिससे तेल भंडार 1984 के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर आ गया। पिछले सप्ताह बेस मेटल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। तांबे की कीमतें, जिसने चीन में धीमी मांग की चिंताओं के कारण सप्ताह में कमजोर शुरुआत की, को भी आने वाले महीनों में आपूर्ति की कमी की संभावना से बढ़ गई। लेकिन चीन की जीडीपी तीसरी तिमाही में अपेक्षा से अधिक तेज गति से बढ़ी है लेकिन सख्त कोविड-19 प्रतिबंध, गहराते संपत्ति संकट और वैश्विक मंदी के जोखिम अगले वर्ष में एक मजबूत रिकवरी को बढ़ावा देने के बीजिंग के प्रयासों को चुनौती दे रहे हैं। एलएएमई की व्यापार प्रणाली से रूसी धातु को अवरुद्ध करने और रूस से आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध के कारण सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिकी नेचुरल गैस बाजारों में तेजी आई है क्योंकि कीमतों में अधिक गिरावट के बाद रिकवरी हुई है।

वृषि कमोडिटीज में, मसाला में मिला-जुला कारोबार हुआ। जीरा और धनिया की कीमतों में तेजी दर्ज की गई जबकि मुनाफावसूली से हल्दी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। अगस्त 22 में निर्यात में साल-दर-साल 5% की वृद्धि हुई और वर्ष 2022 में अब तक साल-दर-साल 15% की वृद्धि हुई। मसालों की कीमतों में मजबूती और त्योहारी और शादियों के मौसम में सक्रिय मांग से धनिया की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई। लेकिन आयात में बढ़ती के कारण घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ रही है। भारतीय जीरा की वैश्विक मांग स्थिर है जो कीमतों में मजबूती का समर्थन कर रही है। स्टॉकस्टों की ओर से उभरती मांग के बीच कच्चे तेल की कीमतों में सुधार के कारण ग्वार काउंटर की गिरावट पर रोक लग गई। कॉटनने भी तेज गिरावट के बाद रिकवरी दर्ज करने की कोशिश की, जबकि कॉटनऑयलसीड केक की कीमतों में गिरावट हुई।?। सर्दी के मौसम में कपास की बढ़ती मांग ने कीमतों को हाल के निचले स्तर से उबरने में मदद की। इसके अलावा, हाल ही में हुई बारिश के कारण महाराष्ट्र और तेलंगाना में फसल कटाई की गतिविधियों में देरी से कपास की कीमतों में तेजी आई। कमजोर मांग के कारण अरंडी की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई। बंपर उत्पादन अनुमान और सुस्त निर्यात मांग से कीमतों पर असर पड़ने की संभावना है।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	14.10.22	20.10.22	(%)
जौ	जयपुर	3049.45	3096.30	1.54%
चना	दिल्ली	4901.90	4912.55	0.22%
धनिया	कोटा	11426.05	11456.05	0.26%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	869.75	893.20	2.70%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1311.00	1281.00	-2.29%
ग्वारसीड	जोधपुर	4750.00	4724.00	-0.55%
ग्वारगम	जोधपुर	9300.00	9268.00	-0.34%
जीरा	ऊंझा	23950.30	23941.70	-0.04%
सरसों	जयपुर	6624.25	6752.50	1.94%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1300.00	1337.50	2.88%
सोयाबीन	इंदौर	5187.10	5270.85	1.61%
हल्दी	निजामाबाद	7221.15	7270.55	0.68%
गेहूं	दिल्ली	2580.25	2636.35	2.17%
कॉटन	कडी	32986.50	33225.55	0.72%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2698.75	2695.70	-0.11%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	14.10.22	20.10.22	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2306.00	2209.5	-4.2%
तांबा	LME	नकद	7538.50	7560.50	0.3%
लेड	LME	नकद	2040.50	1977.50	-3.1%
निकल	LME	नकद	21777.00	22196.00	1.9%
जिंक	LME	नकद	2941.00	2964.00	0.8%
सोना	COMEX	दिसम्बर	1648.90	1636.80	-0.7%
चांदी	COMEX	दिसम्बर	18.07	18.69	3.4%
लाइट क्रूड	NYMEX	नवम्बर	85.61	84.51	-1.3%
नेचुरल गैस	NYMEX	नवम्बर	6.45	5.36	-16.9%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	14.10.22	20.10.22	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	नवम्बर	13.83	13.91	0.59
सोया तेल	CBOT	दिसम्बर	69.17	70.42	1.81
कॉटन	ICE	दिसम्बर	83.15	77.40	-6.92
सीपीओ	BMD	दिसम्बर	3,833.00	4,096.00	6.86

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	13.10.22 क्वांटिटी	20.10.22 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	1681	2133	452
कैस्टर सीड	मी.टन	0	0	0
चना	मी.टन	15599	19549	3950
धनिया	मी.टन	5734	6853	1119
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	0	0	0
ग्वारगम	मी.टन	10215	9439	-776
ग्वारसीड	मी.टन	12556	11017	-1539
जीरा	मी.टन	1816	2025	209
मक्का	मी.टन	0	0	0
सोयाबीन	मी.टन	0	0	0
हल्दी	मी.टन	1953	1565	-388

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	14.10.22 क्वांटिटी	19.10.22 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	2672	2263	-410
तांबा	मी.टन	3973627	4049793	76166
सोना	किग्रा	636	636	0
सोना मिनी	किग्रा	13760	13600	-160
सोना गिनी	किग्रा	475300	474800	-500
लेड	किग्रा	25	25	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	103297	128336	25040
चांदी एम	किग्रा	32563	32553	-10
जिंक	मी.टन	852	919	68

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 14.10.22	स्टॉक की स्थिति 20.10.22	अंतर
एल्युमीनियम	367200	562550	195350.00
तांबा	145660	139000	-6660.00
निकल	52698	53760	1062.00
लेड	30400	29825	-575.00
जिंक	51500	51200	-300.00



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	नवम्बर	24250.00	20.10.22	मंदी	24000.00	-	24750.00	24800.00
NCDEX	हल्दी	नवम्बर	7462.00	11.10.22	तेजी	7300.00	7230.00	-	7200.00
NCDEX	ग्वारसीड	नवम्बर	4679.00	30.05.22	मंदी	6000.00	-	4950.00	5000.00
NCDEX	कैस्टरसीड	नवम्बर	7134.00	14.07.22	तेजी	7270.00	7030.00	-	7000.00
NCDEX	स्टील लांग	नवम्बर	48250.00	25.08.2022	मंदी	50200.00	-	48650.00	48700.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	दिसम्बर	2407.00	03.10.22	तेजी	2300.00	2320.00	-	2300.00
MCX	कॉटन	नवम्बर	29530.00	19.10.22	मंदी	30500.00	-	30250.00	30300.00
MCX	मेंथा ऑयल	नवम्बर	987.90	23.05.22	मंदी	1080.00	-	1015.00	1020.00
MCX	बुलडेक्स	नवम्बर	14048.00	11.10.22	मंदी	14100.00	-	14350.00	14400.00
MCX	चांदी	दिसम्बर	58278.00	11.10.22	मंदी	58500.00	-	58900.00	59000.00
MCX	सोना	दिसम्बर	50737.00	11.10.22	मंदी	51000.00	-	51150.00	51200.00
MCX	मेटलडेक्स	नवम्बर	16444.00	23.06.22	साइडवेज	1796.30	16000.00	16900.00	-
MCX	तांबा	नवम्बर	664.15	29.08.22	मंदी	670.00	-	677.00	680.00
MCX	लेड	नवम्बर	179.25	05.10.22	साइडवेज	181.00	173.00	184.00	-
MCX	जिंक	नवम्बर	270.50	29.08.22	मंदी	312.00	-	279.00	280.00
MCX	एल्युमिनियम	नवम्बर	201.20	29.08.22	मंदी	210.00	-	206.00	207.00
MCX	कच्चा तेल	नवम्बर	7362.00	17.10.22	मंदी	7000.00	-	7770.00	7800.00
MCX	नेचुरल गैस	नवम्बर	484.60	05.09.22	मंदी	710.00	-	512.00	515.00

\*20/10/2022 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पकड़ती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### नेचुरल गैस ( नवम्बर ) एमसीएक्स



### नेचुरल गैस ( नवम्बर ) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 778.20

निचला स्तर: 450.30

एमसीएक्स में नेचुरल गैस (नवम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 27 अक्टूबर 2022 को 484.60 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 513.50 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 32.83 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

515.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 440.00 रु के टारगेट के लिए 495.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### हल्दी ( नवम्बर ) एनसीडीईएक्स



### हल्दी ( नवम्बर ) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 7848

निचला स्तर: 6820

एनसीडीईएक्स में हल्दी(नवम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 27 अक्टूबर 2022 को 7472.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 7443.35 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 48.613 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

7650.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 7100.00 रु के टारगेट के लिए 7500.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### सोना ( दिसम्बर ) एमसीएक्स



### सोना ( दिसम्बर ) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 52859

निचला स्तर: 49183

एमसीएक्स में सोना(दिसम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 27 अक्टूबर 2022 को 50737.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 50616.71 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 47.429 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

51100.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 49700.00 रु के टारगेट के लिए 50700.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

मुख्य रूप से मौजूदा आपूर्ति चिंताओं के कारण हल्दी (नवंबर) वायदा की कीमतों में बढ़त बरकरार रहने की संभावना है। पिछले सप्ताह के दौरान लंबी त्योहारी छुट्टियों के कारण आपूर्ति कम रही। शादियों के सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए खरीदारी गतिविधियों में सुधार की उम्मीद है। आगामी सीजन के लिए कम उत्पादन अनुमान के मद्देनजर स्टॉकिस्टों की ओर से मांग में सुधार हुआ है। अनुमान के अनुसार वर्ष 2022-23 में हल्दी उत्पादन में लगभग 5%-7% की गिरावट हो सकती है। इसके अलावा, अक्टूबर 22 में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई भारी वर्षा के कारण उपज में नुकसान की आशंका है। वर्ष 2022 में हल्दी के तहत उत्पादन क्षेत्र में वर्ष-दर-वर्ष 13% कम हुआ है और अब उपज के नुकसान के डर से बाजार के सेंटीमेंट को मदद मिलेगी। हल्दी की बुवाई गतिविधियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं और आंध्र प्रदेश में हल्दी का कुल उत्पादन क्षेत्र पिछले साल के 19376 हेक्टेयर की तुलना में अक्टूबर 22 तक 16921 हेक्टेयर था। त्योहारों के साथ-साथ शादियों के मौसम में भी मांग सक्रिय रहने की संभावना है जिससे बाजार में हल्दी के सेंटीमेंट में तेजी बनी रहेगी। कम आवक के मौसम के कारण आवक कम रहने की संभावना है। उपरोक्त फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए, कीमतों को 7200 पर सपोर्ट रहने की संभावना है और आने वाले दिनों में धीरे-धीरे 8000 के स्तर की ओर बढ़ने की संभावना है।

स्थानीय बाजार में खरीदारी बढ़ने से जीरा (नवंबर) वायदा की कीमतों में तेजी का रुझान रहने की संभावना है। आपूर्ति में कमी और त्योहारी खरीदारी बढ़ने से कीमतों में तेजी को समर्थन मिल सकता है। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति की कमी के कारण निर्यात मांग सक्रिय रही है, जिसमें मसाला निर्माता अगले तीन महीनों में कमजोर आपूर्ति के मद्देनजर अपने स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। चीन से लगातार मांग के कारण भी कीमतों में तेजी को मदद मिल रही है क्योंकि अगस्त 22 में जीरा के कुल भारतीय निर्यात में चीन का हिस्सेदारी 45% थी। अगस्त 22 में कुल 23.47 हजार टन निर्यात में से लगभग 10.62 हजार टन जीरा चीन द्वारा आयात किया गया था। जीरा (नवंबर) वायदा कीमतों में 23700 के सपोर्ट के साथ 24700 के रजिस्ट्रेंस स्तर की ओर बढ़ने की संभावना है।

मुख्य रूप से आयात में व्यवधान के उभरते डर के बीच सक्रिय त्योहारी खरीदारी के कारण निकट अवधि में धनिया (नवंबर) वायदा की कीमतों में तेजी के रुझान के साथ कारोबार कर सकती है। यूक्रेन और रूस के बीच भू-राजनीतिक तनाव फिर से उभर आया है जिसके परिणामस्वरूप रूस से आयात में गिरावट हुई है। आपूर्ति बाधित होने की बढ़ती आशंका के चलते आयात सौदे रद्द किए जा रहे हैं। भारत ने वर्ष 2022 में अब तक रूस से लगभग 15 हजार टन धनिया का आयात किया है। स्थानीय उत्सवों के कारण धनिया की की मांग में बढ़ोतरी हुई है जिससे निकट भविष्य में कीमतों को समर्थन मिलेगा। लेकिन कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण स्टॉकिस्ट अपने स्टॉक को जारी कर सकते हैं क्योंकि धनिया की कीमतें पहले से ही पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक हैं। कीमतों को 11800 के रजिस्ट्रेंस के साथ 11100 के करीब सपोर्ट मिलने की संभावना है।

### अन्य कमोडिटीज

कॉटन (नवंबर) वायदा की कीमतों में मिलाजुला कारोबार होने की उम्मीद है क्योंकि दिवाली के बाद मांग में सुधार की संभावना है। कपास की कीमतों में लगातार गिरावट के बाद मिलों ने खरीदारी में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद भारत के मध्य भाग में उपज के नुकसान की आशंका बनी हुई है, जिससे कीमतों में मजबूती आने की संभावना है। उपज के नुकसान के साथ-साथ कटाई गतिविधियों में देरी हुई है। साथ ही, भारतीय रुपये के अवमूल्यन और कपास की बढ़ती मौसमी मांग के कारण निर्यात संभावनाओं में सुधार से भी आने वाले सप्ताह में कीमतों में बढ़ोतरी को मदद मिलने की संभावना है। निर्यात की मौसमी प्रवृत्ति से पता चलता है कि भारत से कपास का कुल निर्यात का लगभग 30-40% अक्टूबर-दिसंबर में होता है। बांग्लादेश और अन्य एसईए देशों से निर्यात मांग में अपेक्षित वृद्धि से कीमतों में अधिक गिरावट पर रोक लग सकती है। कीमतों को 28500 का सपोर्ट मिलने की संभावना है और निकट भविष्य में कीमतें धीरे-धीरे 32500 तक बढ़ सकती हैं।

घरेलू बाजार में खरीदारी बढ़ने से कॉटनसीडऑयल केक (दिसंबर) वायदा की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। कपास की कीमतों में बढ़ोतरी से कॉटनसीडऑयल केक की कीमतों को मदद मिल सकती है क्योंकि प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में हाल ही में हुई बारिश के कारण फसल के नुकसान के उभरते डर से कपास की कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतों के 2300 के स्तर पर सपोर्ट रहने की संभावना है और आने वाले सप्ताह में यह 2600 की ओर बढ़ सकती है।

स्थानीय बाजार में उभरती खरीदारी के कारण ग्वारसीड (नवंबर) वायदा की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। निचले स्तर पर खरीदारी गतिविधियों में सुधार हो रहा है जिससे कारोबारियों को शॉर्ट पोजीशन कवर करने के लिए मदद मिलेगी। लेकिन बंपर उत्पादन अनुमान के कारण बढ़त सीमित रहेगा। ग्वारसीड की कीमतों में 4500 का सपोर्ट रह सकता है और 5000 के स्तर तक रिकवरी की संभावना है।

भौतिक बाजार में सीमित कारोबार के कारण मेंथा ऑयल (नवंबर) वायदा की कीमतों के साइडवेज कारोबार होने की संभावना है। उच्च स्टॉक अनुमानों के कारण कीमतों में गिरावट हो रही है, जिसमें खरीदार कीमतों में हर गिरावट पर सक्रिय हैं। कम उत्पादन के कारण कीमतों में गिरावट सीमित रह सकती है। कीमतों में 960 का सपोर्ट रहने की संभावना है और निकट भविष्य में धीरे-धीरे 1010 तक बढ़ सकती है।

स्थानीय बाजार में सुस्त खरीदारी के कारण अरंडी वायदा (नवंबर) की कीमतों पर दबाव में रहने की उम्मीद है। अरंडी के तेल की कमजोर मांग के चलते क्रशर थोक खरीद से दूर हैं। लेकिन पाइपलाइन में कम स्टॉक और वर्ष 2022-23 में कम उत्पादन के कारण गिरावट पर रोक लग सकती है। आगे चलकर, अरंडी की कीमतों के 6950 का सपोर्ट रहने की संभावना है और निकट भविष्य में इसे 7400 पर रजिस्ट्रेंस का सामना करना पड़ सकता है।

### सर्पाफा

कुछ कमजोर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर से ब्याज दरों को बढ़ाने की आक्रामक गति को कम करने की संभावना से डॉलर के कमजोर होने से सोने की कीमतों में दूसरे सप्ताह बहुत दर्ज की गई है। डॉलर इंडेक्स 0.7% बढ़ने के बाद स्थिर रहा, लेकिन बेंचमार्क 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड उच्च सीमा से 4% नीचे थी। कम होते व्यापार घाटे के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने तीसरी तिमाही में जोरदार वापसी की, लेकिन आंकड़ों देश के आर्थिक स्वास्थ्य को लेकर अधिक अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि घरेलू मांग दो वर्षों में सबसे कमजोर रही है। फंड द्वारा व्यापक रूप से अगले सप्ताह अपनी बैठक में फिर से 75 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की घोषणा करने की उम्मीद है, लेकिन केंद्रीय बैंक दिसंबर में अपनी आक्रामक गति को धीमा कर सकता है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने गुरुवार को ब्याज दरों में 75 आधार अंकों की वृद्धि की और अपनी बढ़ी हुई बैलेंस शीट में कमी को एजेंडे में रखा, लेकिन कहा कि मुद्रास्फीति में ऐतिहासिक उछाल से लड़ने के लिए पर्याप्त प्रगति पहले ही हो चुकी है। मंदी की बढ़ती आशंकाओं के साथ, निवेशक तेजी से उम्मीद कर रहे हैं कि फंड दरों में बढ़ोतरी को धीमा कर देगा और इससे सोने को समर्थन मिल रहा है। चांदी की कीमतों में भी दूसरी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई और सोने के नक्शेकदम पर कारोबार किया। दुनिया में सोने के सबसे बड़े एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग कम होकर 925.20 टन हो गई। इस सप्ताह कोमेक्स पर सोने की कीमतों के 1620-1690 डॉलर के दायरे में कारोबार करने की संभावना है और चांदी की कीमतें 17.60-20.20 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती है। एमसीएक्स पर सोने की कीमतें तेजी के रुझान के साथ कारोबार कर सकती है, जहां इसे 49700 के पास सपोर्ट और 51800 के पास रजिस्ट्रेंस का सामना करना पड़ सकता है। चांदी की कीमतों को 55400 के पास सपोर्ट और 61000 के पास रजिस्ट्रेंस का सामना करना पड़ सकता है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

अमेरिकी कच्चे तेल के रिकॉर्ड निर्यात की संभावना के साथ-साथ रूसी तेल पर प्रस्तावित मूल्य सीमा की प्रभावशीलता के बारे में संदेह के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद अमेरिकी कच्चे तेल के रिकॉर्ड निर्यात से मांग में बढ़ोतरी का एक संकेत मिला है। अमेरिकी डॉलर इस संभावना से कमजोर हुआ कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी कम आक्रामक हो सकती है। चीनी मांग को लेकर चिंता, के कारण तेजी सीमित हो गई। वैश्विक निवेशकों ने इस सप्ताह की शुरुआत में विकास के कमजोर रहने, शून्य-कोविड नीति, संपत्ति संकट और गिरते बाजार में कम होते विश्वास के डर से चीनी संपत्ति की बिकवाली की है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। लेकिन डॉलर के एक महीने के निचले स्तर पर पहुंचने से तेल की कीमतों में उछाल दर्ज की गई। उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कम आक्रामक बदलाव की संभावना से अमेरिकी डॉलर पर दबाव पड़ रहा है। इस बीच, अमेरिकी और पश्चिमी अधिकारियों के बारे में कहा जा रहा है कि वे रूसी तेल की कीमतों पर एक सीमा लगाने की योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की नीति कितनी प्रभावी होगी, इस पर संदेह पैदा हो रहा है। इस सप्ताह में दोनों तरफ उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है जहां इसे 6980 के पास सपोर्ट मिल सकता है और संभवतः 7480 के पास रजिस्ट्रेंस का सामना करना पड़ सकता है। नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़त देखी गई लेकिन कीमतें 50 दिन की सरल चलती औसत से ऊपर बने रहने में विफल रही। वर्तमान पैटर्न के आधार पर कीमतों में गिरावट फिर से शुरू हो सकती है। मौसम के मॉडल अगले कुछ महीनों में आम तौर पर मंदी के पैटर्न को जारी रख सकते हैं। आने वाले सप्ताह में कीमतों में नरमी के रुझान के साथ कारोबार जारी रह सकता है और 420 के पास सपोर्ट हो सकता है और 530 के पास रजिस्ट्रेंस का सामना करना पड़ सकता है।



## बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती है क्योंकि कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच शीर्ष उपभोक्ता चीन में मांग को लेकर चिंता और बढ़ती वैश्विक मंदी के कारण धातुओं की मांग में कमी हो सकती है। मध्य चीन के वुहान से लेकर उत्तर-पश्चिम में जिनिंग तक के चीनी शहर कोविड-19 प्रतिबंधों को दोगुना कर रहे हैं, इमारतों को सील कर रहे हैं, जिलों को बंद कर रहे हैं और लाखों लोगों को घरों में बंद कर रहे हैं ताकि व्यापक प्रकोप को रोका जा सके। लेकिन अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि की धीमी गति की उम्मीद, जो वैश्विक शेयर बाजारों को बढ़ावा दे सकती है और डॉलर को कमजोर कर सकती है, के कारण कीमतें बढ़ सकती हैं। तांबे की कीमतें 630-675 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एलएमई में तांबे का उपलब्ध भंडार, जिन्हें डिलीवरी के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, पिछले तीन हफ्तों में 68% कम हो गया है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार, चीन ने सितंबर में 946,000 टन रिफाईंड तांबे का उत्पादन किया, जो एक साल पहले की तुलना में 5.8% अधिक है। जिंक की कीमतें 250-280 के दायरे में कारोबार कर सकती है। लेड की कीमतें 170-182 के दायरे में कारोबार कर सकती है। ऊर्जा संकट और कम भंडार के कारण यूरोप में उत्पादन में कटौती होने से पिछले वर्ष की तुलना में जिंक की कीमतें अधिक बनी हुई है, लेकिन विकास और मांग में मंदी से उत्पन्न प्रतिकूलता अब बाजार के लिए एक बड़ी चुनौती है। एल्युमीनियम की कीमतें 190-207 के दायरे में कारोबार कर सकती है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक, चीन का सितंबर में एल्युमीनियम उत्पादन सालाना आधार पर 9.3% बढ़कर 3.42 मिलियन टन हो गया। कमोडिटी व्यापारी ग्लेनकोर रूसी उत्पादकों के साथ अपने अनुबंध के अनुसार अगले साल रूस से एल्युमीनियम खरीदेगा, और अभी तक इसके मौजूदा ग्राहक आधार का लगभग 10% ही कहीं और देख रहा है। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन्ग की कीमतें 47000-48800 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

## यूरोपीय सेंट्रल बैंक(ईसीबी).....बढ़ती मुद्रास्फीति और मंदी के दोराहे पर

ईसीबी यूरोपीय संघ के उन 19 देशों का केंद्रीय बैंक है जो यूरो का उपयोग करते हैं। इसका मुख्य कार्य मुद्रास्फीति को कम, स्थिर और उम्मीद के अनुकूल बनाए रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। कीमतों को स्थिर रखने के लिए ईसीबी कई मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करता है। बदले में, यह अर्थव्यवस्था और लोगों की आय और रोजगार सृजन का समर्थन करता है।

### यूरो जोन की स्थिति गंभीर

वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था अत्यधिक अनिश्चितता और बढ़ती चुनौतियों के दौर से गुजर रही है, जिसमें मुद्रास्फीति का उच्च स्तर, प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक सख्ती, कई क्षेत्रों में अधिक सॉवरेन ऋण स्तर शामिल हैं। यूरो क्षेत्र दुनिया के किसी भी हिस्से की तुलना में अधिक तबाही का सामना कर रहा है क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध ने प्रतिकूल भू-राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी है। ऊर्जा और खाद्य कीमतों में वृद्धि, और आपूर्ति की अड़चनें अभी भी मुद्रास्फीति को बढ़ा रही हैं। मूल्य दबाव पूरे अर्थव्यवस्था में अधिक और व्यापक हो रहा है और निकट अवधि में मुद्रास्फीति में आगे भी वृद्धि हो सकती है। यह देखते हुए, ईसीबी ने अपने मुद्रास्फीति अनुमानों को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित किया है और मुद्रास्फीति अब 2022 में औसत 8.1%, 2023 में 5.5% और 2024 में 2.3% रहने की उम्मीद है।

### महंगाई पर नियंत्रण के लिए ब्याज दर में वृद्धि

यूरो का उपयोग करने वाले केंद्रीय बैंक ने अपने 2% के मध्यम अवधि के मुद्रास्फीति लक्ष्य पर समय पर वापसी सुनिश्चित करने के लिए अपनी जमा दर को 75 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 1.5% कर दिया- जो 2009 के बाद से सबसे अधिक दर है। हाल ही में जुलाई तक, ईसीबी दरें आठ वर्षों से नकारात्मक क्षेत्र में थीं।

### मंदी अब हकीकत है

हाल के आंकड़े यूरो क्षेत्र के आर्थिक विकास में पर्याप्त मंदी की ओर इशारा करते हैं और अर्थव्यवस्था के इस वर्ष बाद में और 2023 की पहली तिमाही में धीमी होने की उम्मीद है। बहुत अधिक ऊर्जा की कीमतें लोगों की आय और क्रय शक्ति को कम कर रही हैं और, यद्यपि आपूर्ति की बाधाएं कम हो रही हैं, लेकिन वे अभी भी आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर रही हैं। इसके अलावा, प्रतिकूल भू-राजनीतिक स्थिति, विशेष रूप से यूक्रेन-रूस के बीच संघर्ष, व्यवसायों और उपभोक्ताओं के विश्वास पर भारी पड़ रही है। यह आउटलुक आर्थिक विकास के लिए ईसीबी के नवीनतम स्टाफ अनुमानों में परिलक्षित होता है, जिसे चालू वर्ष के शेष और 2023 के लिए स्पष्ट रूप से संशोधित किया गया है। ईसीबी अब 2022 में अर्थव्यवस्था के 3.1%, 2023 में 0.9% और 2024 में 1.9% बढ़ने की उम्मीद करता है।

### संपत्ति खरीद कार्यक्रम

ईसीबी की गवर्निंग काउंसिल का इरादा संपत्ति खरीद कार्यक्रम (एपीपी) के तहत खरीदी गई परिपक्व प्रतिभूतियों से मूल भुगतान का पुनर्निवेश जारी रखने का है, जो उस तारीख से पहले की विस्तारित अवधि के लिए है जब उसने प्रमुख ईसीबी ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू किया था और किसी भी स्थिति में, लंबे समय तक पर्याप्त तरलता की

### यूरो और सोना (कॉम्बेक्स) की कीमतों की तुलना



स्रोत: रॉयटर्स

स्थिति और एक उपयुक्त मौद्रिक नीति रख बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति 9.9% तक पहुंचने के कारण ईसीबी ने अपनी 8.8 ट्रिलियन यूरो बैलेंस शीट को कम करने की दिशा में पहला कदम उठाया, एक ऐसा कदम जो उधार लेने की लागत को अधिक बढ़ा सकता है और एक प्रकार की छिपी हुई दर वृद्धि के रूप में कार्य कर सकता है।

### पुनर्वित्त संचालन

गवर्निंग काउंसिल बैंकों को फंडिंग की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि लक्षित लंबी अवधि के पुनर्वित्त संचालन की तीसरी श्रृंखला के तहत परिचालन की परिपक्वता उसकी मौद्रिक नीति के सुचारू प्रसारण में बाधा न बने। ऐसे कदम में, जिसे वाणिज्यिक बैंकों से लड़ा जा सकता है, इसने ऐसे ऋणदाताओं को 2.1 ट्रिलियन यूरो मूल्य के अत्यंत-सस्ते तीन-वर्षीय ऋणों के माध्यम से दी जाने वाली सब्सिडी पर अंकुश लगाया है जिसे लक्षित दीर्घकालिक पुनर्वित्त संचालन कहा जाता है।



## एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्यूटेड नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्बोरिटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**डिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्रायिकता की व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सिक्यूरिटीज एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोziशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ड्रॉकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।